



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022

आश्विन 8, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2785/9-1-2022-27परि०-22

लखनऊ, 30 सितम्बर, 2022

अधिसूचना

प०आ०-675

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 11-ख के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना संख्या 1237/9-1-2022-27परि०-22, दिनांक 23 जून, 2022 द्वारा गजट में प्रकाशित आदेश के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् नगर पंचायत पयागपुर, जिला बहराइच के नगर निकाय क्षेत्र को नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा उल्लिखित 15 वार्डों में विभाजित करती हैं। प्रत्येक वार्ड का विस्तार ऐसा होगा, जैसा उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उसके समक्ष उल्लिखित है।

अनुसूची

नगर पंचायत पयागपुर, जिला बहराइच

कक्ष सं०	कक्ष का नाम	कक्ष की सीमायें
1	2	3
1	पयागपुर खास	<p>उत्तर दिशा-पश्चिम से पूरब मनु नाऊ की दुकान से अनिल कसौधन की दुकान होते हुए राजेन्द्र बारी के घर से होते हुए सम्पूर्ण बारीपुरवा सम्मिलित करते हुए गाटा संख्या 2366 ग्राम सचौली सीमा तक।</p> <p>पूरब दिशा-उत्तर से दक्षिण गाटा संख्या 2366 ग्राम सचौली की सीमा से होते हुए गाटा संख्या 2361 साधू सरन के चक से होते हुए गाटा संख्या 2357 इन्द्रावती के खेत तक।</p> <p>दक्षिण दिशा-पूरब से पश्चिम गाटा संख्या 2357 से पश्चिम गाटा संख्या 2288 होते</p>

कक्ष सं०	कक्ष का नाम	कक्ष की सीमायें
1	2	3
		हुए उत्तर दिशा की ओर किशोर पुत्र अशर्फी के घर से होते हुए दीना नाथ के मकान से होते हुए आलोक रस्तोगी की दुकान होते हुए मोहम्मद अली के दुकान से होकर किशन कश्यप की दुकान से सावल पंसारी के मकान से होते हुए राम अवतार शर्मा तथा श्याम बिहारी के मकान से होते हुए महावीर अग्रवाल के मकान तक। पश्चिम दिशा —दक्षिण से उत्तर की तरफ महावीर अग्रवाल के मकान से इण्टरलाकिंग रोड होते हुए मनु नाऊ के दुकान तक।
2	मंगरेपुरवा	उत्तर दिशा —पश्चिम से पूरब मुकेश श्रीवास्तव पूर्व विधायक के पीछे वाली गली होते हुए भीम की वाउण्ड्री वाल से दक्षिण की तरफ चलकर मंगल लोहार के मकान से होते हुए संकटा प्रसाद तिवारी के मकान से होते हुए बघ्दे सिंह के मकान की गली को सम्मिलित करते हुए काली थान होते हुए श्रीमती जनका पत्नी राम राज के मेडिकल स्टोर से चक मार्ग संख्या 1495 सम्मिलित करते हुए इकौना पयागपु राजमार्ग पार कर पूरब दिशा की ओर जगदीश प्रसाद के चक गाटा संख्या 1877 तक। पूरब दिशा —जगदीश प्रसाद के चक संख्या 1877 से चकमार्ग सम्मिलित करते हुए गाटा संख्या 1949 भानू व गंगांराम के चक से पूरब गाटा संख्या 1952 सालिकराम आदि के चक से होते हुए गोण्डा—बहराइच राजमार्ग पार कर दक्षिण दिशा की ओर गाटा संख्या 2474 देवीदयाल ओमकार नाथ आदि के चक तक। दक्षिण दिशा —पूरब से पश्चिम देवीदयाल के चक संख्या 2474 से सूर्य नारायण पुत्र अम्बर प्रसाद के चक संख्या 2448 से होते हुए गाटा संख्या 2409 आनन्द प्रकाश उर्फ लल्लू पुत्र माता प्रसाद के चक से होते हुए तहसील परिसर के दक्षिण रेलवे लाइन तक। पश्चिम दिशा —रेलवे लाइन से तहसील जाने वाले रास्ते से होते हुए उत्तर दिशा में गोण्डा—बहराइच राजमार्ग पार करते हुए राजू खान पुत्र मुन्ना खान के मकान से होते हुए कन्या पाठशाला स्कूल होते हुए श्री मुकेश श्रीवास्तव पूर्व विधायक के मकान के पीछे पश्चिम गली तक।
3	रुकनापुर	उत्तर दिशा —अक्षयवर सिंह के बाग से तालाब (नाला स्वरूप) होते हुए कपीस सिंह के घर के पीछे तालाब से होकर पूर्व चक मार्ग से कब्रिस्तान के उत्तर चक मार्ग होकर बशीर आदि के खेत की पूर्वी मेड़ से लगी सहसरांवा सीमा तक। पूरब दिशा —सहसरांवा सीमा से लगे बशीर आदि के चक के पूर्व चक मार्ग से होकर श्रीमती रवीन्द्र कौर के चक होते हुए चन्द्रवीर सिंह के पूर्व चक मार्ग से होकर मौनी बाबा आश्रम वाले रास्ते से होते हुए गोण्डा—बहराइच राजमार्ग तक। पुनः जोगेन्द्र सिंह के घर के सामने गोण्डा—बहराइच राजमार्ग पर शिवदहा मोड़ तक रास्ते पर। उर्वशी देवी (कोट बाजार) के पूर्व रास्ते से होकर रेलवे क्रासिंग होते हुए चन्द्र मोहन के घर तक। दक्षिण दिशा —ब्लाक से इन्दिरा मेमोरियल वाले रास्ते से चन्द्र मोहन के घर से कमरुलनिशा के घर तक। राहुल स्टूडियो से विष्णु शिव भगवान के घर तक। मंगल के घर से पूरन के घर तक। पुनः अनुसूचित जाति आबादी से पंडितपुरवा वाले रास्ते पर मनोज आदि के बाग से होकर वीर सिंह पुरवा वाले रास्ते पर जीवनलाल के बाग तक। पश्चिम दिशा —जीवन लाल के बाग से उत्तर चक मार्ग होकर नहर की तरफ विजय कुमार के चक से होते हुए खेल के मैदान के पश्चिम शिवजामवन्ती मन्दिर के उत्तर रास्ते से होकर क्रासिंग होते हुए लल्ला सिंह के घर के पूर्व चक मार्ग से होकर गोण्डा—बहराइच मार्ग तक। पुनः गोण्डा—बहराइच मार्ग से अनिल कुमार आदि (निवासी सहसरांवा) के बाग से कब्रिस्तान होते हुए पवन कुमार (गाटा संख्या 965) के चक से पूरब पश्चिम रास्ता होकर छीटन गाटा संख्या 793 के चक की पूर्वी मेड़ से अक्षयवर सिंह के बाग तक।

कक्ष सं०	कक्ष का नाम	कक्ष की सीमायें
1	2	3
4	मसूदपुर	<p>उत्तर दिशा—विकास खण्ड कार्यालय होते हुए काशी तालाब गाटा संख्या 624 तक।</p> <p>पूरब दिशा—उत्तर से दक्षिण काशी तालाब गाटा संख्या 624 अमरपति व पारसनाथ फार्म से चन्द्रभवन व रंगमहल के दक्षिण रास्ते के गाटा संख्या 1080 से होते हुए उत्तर दिशा चलकर लल्ली देवी स्कूल होते हुए लखरांवा बाग के उत्तरी रास्ते के गाटा संख्या 1175 से होते हुए गाटा संख्या 1202 त्रियुगी नारायण पुत्र केदार नाथ से सम्पूर्ण ग्राम सभा सम्मिलित करते हुए दक्षिण की तरफ गाटा संख्या 1240 राम राज के चक व गाटा संख्या 1248 सकटू राम के चक व गाटा संख्या 1263 सीता देवी के चक से होते हुए गाटा संख्या 1292 चन्दन कुमार व कुन्दन कुमार आदि के चक के पूरब स्थित चक मार्ग को सम्मिलित करते हुए।</p> <p>दक्षिण दिशा—गाटा संख्या 1292 चन्दन व कुन्दन निगम से पूरब से पश्चिम की ओर फीलखाना सम्मिलित करते हुए राज कुमार निगम की दुकान व घर सम्मिलित करते हुए के०बी०इण्टर कालेज मार्ग पार कर राम सिंह के मकान व सन्तोषी माता मन्दिर गली होते हुए चुन्नी लाल की दुकान एवं गोपाल पाण्डेय के मकान को सम्मिलित कर विकास खण्ड कार्यालय मार्ग पर उत्तर की ओर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की उत्तरी सड़क सम्मिलित करते हुए नजर मोहम्मद के खेत गाटा संख्या 400 तक।</p> <p>पश्चिम दिशा—दक्षिण से उत्तर गाटा संख्या 400 नजर मोहम्मद के चक के पश्चिम सड़क को सम्मिलित करते हुए उत्तर दिशा की ओर गाटा संख्या 390 कमला प्रसाद के चक के उत्तरी चक मार्ग को सम्मिलित करते हुए गाटा संख्या 779 सत्य नारायण व ओम प्रकाश के चक के पूर्वी चक मार्ग को सम्मिलित कर उत्तर दिशा की ओर गाटा संख्या 634 चक मार्ग को सम्मिलित करते हुए पश्चिम की ओर होते हुए गाटा संख्या 724 सहजराज के चक के पश्चिम दोनों चक मार्गों को सम्मिलित करते हुए उत्तर दिशा विकास खण्ड कार्यालय तक।</p>
5	पयागपुर प्रथम	<p>उत्तर दिशा—पश्चिम से पूरब गाटा संख्या 425 रास्ता सम्मिलित करते हुए गाटा संख्या 438 राम दुलारी के चक से पूरब की ओर गाटा संख्या 1288 अहिरनपुरवा सामान्य आबादी के पूरब सड़क को सम्मिलित करते हुए।</p> <p>पूरब दिशा—उत्तर से दक्षिण गाटा संख्या 1288 सामान्य आबादी के पूरब रास्ते को सम्मिलित करते हुए देवी सरन के मकान से मुकेश श्रीवास्तव की गली होते हुए रमेश चन्द्र पाठक के मकान से होते हुए सन्तोष कोटेदार के मकान से होते हुए सुनील बाल्मीकि के मकान के पूरब इण्टरलाकिंग शामिल करते हुए गोण्डा—बहराइच राजमार्ग तक।</p> <p>दक्षिण दिशा—सुनील बाल्मीकि के मकान से गोण्डा—बहराइच मार्ग से पश्चिम से पूरब की तरफ होते हुए गाटा संख्या 1441 बृज नारायण के चक से होते हुए घर्मराज के मकान तक रास्ता सम्मिलित करते हुए गाटा संख्या 340 राजाराम के मिल तक।</p> <p>पश्चिम दिशा—दक्षिण से उत्तर राजाराम के मिल गाटा संख्या 340 से उत्तर की तरफ रास्ते को सम्मिलित करते हुए जल निगम पानी टंकी होते हुए पलटनपुरवा से राम दुलारी के चक सं० 438 तक।</p>
6	सचौली	<p>उत्तर दिशा—पश्चिम से पूरब ठाकुर प्रसाद आदि के चक गाटा संख्या 208 से चक से गाटा संख्या 221 शत्रुहन प्रसाद आदि के चक तक।</p> <p>पूरब दिशा—उत्तर से दक्षिण गाटा संख्या 221 शत्रुहन प्रसाद के चक से दक्षिण रास्ता होते हुए गाटा संख्या 401 बाबू के चक से पूरब दिशा काली सड़क को पार करते हुए मस्जिद वाली गली से होते हुए अली अहमद के मकान से होते हुए जनकराज के घर से होते हुए दक्षिण पूरब वाऊर के घर से होते हुए गाटा संख्या 1287 ननके के चक तक।</p> <p>दक्षिण दिशा—ननके के चक संख्या 1287 से होते हुए पश्चिम चक मार्ग होते हुए सुन्दर के घर से शिव नाथ के घर तक काली सड़क पार करते हुए मस्तान शाह बाबा होते हुए फीलखाना मार्ग से गाटा संख्या 424 हलीमुन के चक तक।</p> <p>पश्चिम दिशा—गाटा संख्या 424 से दक्षिण से उत्तर हलीमुन के चक होते हुए गाटा संख्या 338 बृजकुंवारी के चक से होते हुए गाटा संख्या 208 ठाकुर प्रसाद आदि के चक तक।</p>

कक्ष सं०	कक्ष का नाम	कक्ष की सीमायें
1	2	3
7	पयागपुर द्वितीय	<p>उत्तर दिशा—अहिरन पुरवा के पूर्वी मार्ग गाटा संख्या 1244 अर्जुन व नकुल आदि पुत्रगण राम बहादुर के चक होते हुए पूरब की तरफ गाटा संख्या 1202 फुल्लर सिंह, जगदम्बा सिंह आदि पुत्र गण कुलदीप के चक से दक्षिण छोटी नहर होते हुए पयागपुर—इकौना मार्ग की पुलिया तक।</p> <p>पूरब दिशा—छोटी नहर की पुलिया से इकौना पयागपुर मार्ग सम्मिलित करते हुए दक्षिण की तरफ इन्द्रजीत यादव के पान की दुकान तक।</p> <p>दक्षिण दिशा—इन्द्रजीत की पान की दूकान से पश्चिम दिशा कालीथान होते हुए बसन्त कुमार सिंह मास्टर के मकान से इण्टरलाकिंग सम्मिलित करते हुए प्रयाग दत्त के मकान से होते हुए सुरेश सोनी के मकान से होते हुए राम खेलावन के मकान तक।</p> <p>पश्चिम दिशा—दक्षिण से उत्तर की ओर राम खेलावन के मकान से होते हुए बाबू लाल के मकान होते हुए स्व० सन्तोष पाठक लेखपाल के मकान से होते हुए गाटा संख्या 1244 अर्जुन व नकुल आदि पुत्रगण राम बहादुर के चक अहिरनपुरवा के पूर्वी रास्ते तक इण्टरलाकिंग सम्मिलित करते हुए।</p>
8	पैतौरा	<p>उत्तर दिशा—शिवदहा मार्ग से पूरब पेट्रोल टंकी गाटा संख्या 153 सुनील कुमार आदि के पूरब सड़क होते हुए के पूरब सड़क उत्तर दिशा में चलकर गाटा संख्या 193 विशाल के प्लाट से पूरब होते हुए गाटा संख्या 174 बलेश्वर नाथ के दक्षिण चक मार्ग सम्मिलित करते हुए गाटा संख्या 299 केशवराम व हंसराज आदि के चक से होते हुए पूरब दिशा की ओर गाटा संख्या 389 चक मार्ग सम्मिलित करते हुए दक्षिण दिशा की ओर चलकर बहराइच गोण्डा राजमार्ग होते हुए पूरब दिशा की ओर तहसील परिसर जाने वाले मार्ग तक।</p> <p>पूरब दिशा—उत्तर से दक्षिण गोण्डा बहराइच जाने वाले राजमार्ग से तहसील परिसर जाने वाले मार्ग को सम्मिलित करते हुए रेलवे लाइन तक।</p> <p>दक्षिण दिशा—पश्चिम से पूरब रेलवे लाइन होते हुए रूकनापुर सीमा तक।</p> <p>पश्चिम दिशा—दक्षिण से उत्तर रेलवे लाइन से शिवदहा मार्ग पर।</p>
9	नूरपुर	<p>उत्तर दिशा—पश्चिम से पूरब पंडितपुरवा से उत्तर जगराम पुत्र गंगाराम के मकान होते हुए छेदी पुत्र मतारु के मकान होते हुए राहुल स्टूडियो तक।</p> <p>पूरब दिशा—उत्तर से दक्षिण राहुल फोटो स्टूडियो से होते हुए क्रय विक्रय समिति होते हुए गाटा संख्या 952 से दक्षिण गाटा संख्या 897 हरीराम व मजनू व सहजराम के घर से पूरब दिशा की ओर होते हुए गाटा सं० 750 मरुली पुत्र वंशी के खेत से होते हुए दक्षिण दिशा की ओर गाटा संख्या 760 विनोद के घर/खेत तक।</p> <p>दक्षिण दिशा—पूरब से पश्चिम गाटा संख्या 760 विनोद के घर/खेत से होते हुए ईदगाह के उत्तर रास्ते से होते हुए चकमार्ग गाटा संख्या 840 होते हुए सम्पूर्ण सफलपुरवा तक।</p> <p>पश्चिम दिशा—दक्षिण से उत्तर सफलपुरवा आबादी (नूरपुर) होते हुए सीधे उत्तर की तरफ पंडितपुरवा होते हुए जगराम पुत्र गंगाराम के मकान तक।</p>
10	कोट बाजार	<p>उत्तर दिशा—पश्चिम से पूरब गाटा संख्या 1426 के उत्तरी मेड हुसना बानो के मकान से होते हुए मजीद व हुसैनी व खिजिर मोहम्मद के मकान के पीछे से उत्तर तालाब के गाटा संख्या 1442 को सम्मिलित करते हुए विसम्भर के मकान से सीधे बृजलेश कश्यप के मकान की गली को सम्मिलित करते हुए इण्टरलाकिंग सड़क पार करते हुए सन्तोषी माता मन्दिर की गली से छेदी लाल वैश्य के मकान से के०वी०इण्टर कालेज सड़क पार करके फील खाना रास्ता के दक्षिण गाटा संख्या 1453 हमीदुल के मकान तक।</p> <p>पूरब दिशा—गाटा संख्या 1453 हमीदुल के मकान से के०वी०इण्टर कालेज मार्ग के पूरब राज कमल सोनी के मकान से दक्षिण जे०पी०जे० स्कूल तक।</p> <p>दक्षिण दिशा—जे०पी०जे० स्कूल से के०वी० इण्टर कालेज मार्ग पार करके सुधीश जायसवाल के मकान से पश्चिम पेशकार यादव के मकान से मनोज के मकान से इण्टरलाकिंग पार करते हुए रघुवर दयाल की गली से सीधे पश्चिम उमेश नाई के मकान को सम्मिलित करते हुए जगदीश व जय नारायण की गली में रिकू आदि के मकान से मदरसा वाली गली बाबू लाल मनिहार के मकान से होते हुए इस्लामुद्दीन के मकान तक।</p> <p>पश्चिम दिशा—इस्लामुद्दीन के मकान से उत्तर गाटा संख्या 1426 उत्तरी मेड हुसनाबानो के मकान तक।</p>

कक्ष सं०	कक्ष का नाम	कक्ष की सीमायें
1	2	3
11	कटहरीबाग	<p>उत्तर दिशा—पश्चिम से पूरब गाटा सं० 173 एगो स्टेट होते हुए चक मार्ग गाटा संख्या 114 व 115 से हाते हुए पूरब की तरफ ईदगाह हाते हुए गाटा संख्या 775 राम मनोहर पुत्र बुद्धू के चक तक।</p> <p>पूरब दिशा—उत्तर से दक्षिण गाटा संख्या 775 राम मनोहर पुत्र बुद्धू के चक से होते हुए गाटा संख्या 779 सत्य नारायण ओम प्रकाश चक से होते हुए पश्चिम की तरफ गाटा संख्या 784 खलिहान के पूरब चकमार्ग से दक्षिण की ओर गाटा संख्या 256 श्रीमती सत्यवती सिंह चक से होते हुए गाटा संख्या 409 इफतिखार अहमद के चक से पूरब सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सम्मिलित करते हुए दक्षिण दिशा की ओर बारी माहेल्ला होते हुए तालाब बघले की सीमा तक।</p> <p>दक्षिण दिशा—पूरब से पश्चिम तालाब बघले सीमा बारी मोहल्ला होते हुए चंचाली बारी के मकान से होते गाटा संख्या 504 मनोज कुमार आदि के मकान से होते हुए पश्चिम की तरफ कटहरी बाग मार्ग से होते हुए गाटा संख्या 209 जंगल तक।</p> <p>पश्चिम दिशा—दक्षिण से उत्तर गाटा संख्या 207 कुमारी विजय लक्ष्मी आदि के चक से होते हुए गाटा संख्या 195 संजय कुमार व गाटा संख्या 182 बजरंग के चक से होते हुए गाटा संख्या 174 चक मार्ग को सम्मिलित करते हुए एगो स्टेट तक।</p>
12	भूपगंज	<p>उत्तर दिशा—पश्चिम से पूरब राहुल स्टूडियो होते हुए अनूप सराफ के मकान से सम्पूर्ण जवाहिर सिंह पुरवा होते हुए शिव शंकर पाण्डेय पुत्र सत्य नारायण (गाटा संख्या 1023) के खेत तक।</p> <p>पूरब दिशा— उत्तर से दक्षिण शिव शंकर पाण्डेय के खेत गाटा संख्या 1023 से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए गाटा संख्या 1049 सूर्य नारायण माधवराज आदि के चक से पूरब गाटा संख्या 1062 त्रिपाल जी के खेत से रमना बाग होते हुए दक्षिण की ओर गाटा संख्या 1148 सूर्य प्रसाद के चक से हाते हुए शान्ती प्रसाद पुत्र रामबल (गाटा संख्या 1174) के खेत तक।</p> <p>दक्षिण दिशा — गाटा संख्या 1174 शान्ती प्रसाद के खेत से होते हुए गाटा संख्या 1175 रास्ता सम्मिलित करते हुए पश्चिम की ओर चन्द्र भवन व रंग महल के दक्षिण गाटा संख्या 1080 रास्ते से होते हुए भूपगंज बाजार जाने वाले मार्ग तक।</p> <p>पश्चिम दिशा— रंग महल के दक्षिण चक मार्ग से उत्तर की ओर चन्द्र भवन रमना बाग व काशी तालाब होते हुए तालाब बघेल से भूपगंज बाजार से होते हुए राहुल फोटो स्टूडियो तक।</p>
13	सचौली प्रथम	<p>उत्तर दिशा— पश्चिम से पूरब गाटा संख्या 1 यशोदा आदि के चक से होते हुए आनन्द प्रकाश के चक से काली सड़क पार सुरेन्द्र नाथ के चक से होते हुए राम मनी आदि के चक तक।</p> <p>पूरब दिशा— गाटा संख्या 76 राम मनी आदि के चक से होते हुए शंकर बाबा चौरा मन्दिर से रेलवे लाइन पार करके बच्चा दूबे के मकान से शत्रुहन के मकान के होते हुए बाबा राम प्रकाश मन्दिर तक।</p> <p>दक्षिण दिशा — बाबा राम प्रकाश मन्दिर से पश्चिम रास्ते से होते हुए गाटा संख्या 206 गंगाराम आदि के चक तक।</p> <p>पश्चिम दिशा— गंगाराम के गाटा संख्या 206 रास्ते को सम्मिलित करते हुए गाटा संख्या 197 माधव जंग बहादुर राना के बाग से होते हुए गाटा संख्या 184 लायक राम के चक से सीधे रेलवे लाइन पार करके गाटा संख्या 1 यशोदा आदि के चक तक।</p>
14	कांधी कुइर्यौ	<p>उत्तर दिशा—पश्चिम से पूरब गाटा संख्या 1 यशोदा आदि के चक से होते हुए आनन्द प्रकाश के चक से काली सड़क पार सुरेन्द्र नाथ के चक से होते हुए राम मनी आदि के चक तक।</p> <p>पूरब दिशा—गाटा संख्या 76 राम मनी आदि के चक से होते हुए शंकर बाबा चौरा मन्दिर से रेलवे लाइन पार करके बच्चा दूबे के मकान से शत्रुहन के मकान के होते हुए बाबा राम प्रकाश मन्दिर तक।</p> <p>दक्षिण दिशा—बाबा राम प्रकाश मन्दिर से पश्चिम रास्ते से होते हुए गाटा संख्या 206 गंगाराम आदि के चक तक।</p> <p>पश्चिम दिशा— गंगाराम के गाटा संख्या 206 रास्ते को सम्मिलित करते हुए गाटा संख्या 197 माधव जंग बहादुर राना के बाग से होते हुए गाटा संख्या 184 लायक राम के चक से सीधे रेलवे लाइन पार करके गाटा संख्या 1 यशोदा आदि के चक तक।</p>

कक्ष सं०	कक्ष का नाम	कक्ष की सीमायें
1	2	3
15	कोट बाजार प्रथम	<p>पूरब दिशा—बैजनाथ के दुकान से के०वी० इण्टर कालेज मार्ग के पूरब होते हुए दक्षिण गाटा संख्या 1595 की उत्तरी मेड प्राइवेट फार्रेस्ट तक।</p> <p>दक्षिण दिशा—गाटा संख्या 1595 प्राइवेट फार्रेस्ट से उत्तरी मेड से पूरब पश्चिम प्राग दत्त के मकान से रती बंगाली के मकान हाते हुए श्यामलाल बाल्मीकि के मकान तक।</p> <p>पश्चिम दिशा—श्याम लाल बाल्मीकि के मकान से होते हुए शब्बीर मिस्त्री व छब्बन के मकान से होते हुए गुलाब अंसारी के मकान से गणेश बाल्मीकि के मकान के उत्तर मेंहदी हसन के घर से एकता इंग्लिश मीडियम की गली को सम्मिलित करते हुए रहीश पुत्र अमानतउल्ला के मकान तक।</p> <p>उत्तर दिशा—पश्चिम से पूरब रहीश पुत्र अमानत उल्ला के मकान से कालीथान से कल्लू मनिहार होते हुए मदरसा वाली गली से रिकू पिन्दू की गली होते हुए प्रताप नारायण व कन्हैया लाल की गली से दीपक तिवारी के मकान से अल्लू झाइवर के उत्तर गली को सम्मिलित करते हुए बजरंगी के घर से पुरानी बीज गोदाम के सामने इण्टरलाकिंग सडक को पार करके मंगली गुप्ता के मकान से दिलीप जायसवाल के मकान से के०वी०इण्टर कालेज मार्ग को पार करते हुए आर्यावर्त बैंक हाते हुए बैजनाथ की दुकान तक।</p>

आज्ञा से,
अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.2785/IX-1-2022-27Pari.-22, dated September 30, 2022:

No.2785/IX-1-2022-27 Pari.-22

Dated Lucknow, September 30, 2022

IN exercise of the powers under Section 11-B of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no.2 of 1916), the Governor after considering objections received in pursuance of the order published in the *Gazette vide* notification no.1237/IX-1-2022-27 Pari.-22, dated June 23, 2022 under sub-section (2) of the said Section, is pleased to divide the Municipal Area of Nagar Panchayat Payagpur, district Bahraich into 15 Wards as mentioned in Column-2 of the Schedule below. The extent of every ward shall be such as mentioned against it in Column-3 of the said Schedule.

SCHEDULE

Nagar Panchayat Payagpur, District Bahraich

Ward No.	Name of Ward	Extent of Ward
1	2	3
1	Payagpur Khaas	<p>North – From West to East Moon nau shop to gram Sachauli baoundary via shop of Anil Kasaudhan, house of Rajendra Bari including Baripurwa.</p> <p>East –From North to South gata no.2366 village Sachauli boundary to gata no.2357 Indravati farm via gata no.2361 Sadhu Saran farm.</p> <p>South –From East to West gata no 2357- West gata no.2288 to house of Mahaveer Agarwal via from North direction house of Kishore son of Asarfi – house of Deena Nath- shop of Alok Rastogi- shop of Mohamad Ali- shop of Kishan Kashyap- house of Sawal Pansari- house of Ram Avatar Sharma and shyam Bihari.</p> <p>West –From South to North house of Mahaveer Agarwal to shop of Moon nau via interlocking road.</p>

Ward No.	Name of Ward	Extent of Ward
1	2	3
2	Mangre Purwa	<p>North -From West to East, the back lane of Ex. MLA Mukesh Srivastava walks South from Bhima's boundarywall, passes through Mangal Lohar's house, passes through Sankata Prasad Tiwari's house, and passes through the street of Baghghe Singh's house. From the medical store of Mrs. Janka w/o Ram Raj, crossing the Ikauna Payagpur highway, including the chak marg no.1495, towards the East direction till Jagdish Prasad's Chak gata no.1877</p> <p>East - From the chak 1877 to the East direction Jagdish Prasad chak no 1949, from the chak number of Bhanu and Gangaram to the East gata no 1952 Salik Ram crossing the Gonda Bahraich highway through the chak of gata no 2474 in the South direction till the chak of Devidayal Omkar Nath etc.</p> <p>South -From East to West Devidayal's chak no. 2474 to Surya Narayan son of Amber Prasad chak no. 2448 to gata no. 2409 via Anand Prakash Alias Lallu son of Mata Prasad chak to Southern Railway line of tehsil complex.</p> <p>West - On the way to tehsil from the West direction crossing the Gonda Bahraich highway in the North direction passing through the house of Raju Khan son of Munna Khan passing through Kanya Pathsala School to the West street behind the house of Ex MLA Mukesh Srivastava.</p>
3	Ruknapur	<p>North -Via Akshayvar Singh's garden to pool (kind of shewer), through back pool of Kapees Singh's house, Passes through from the East chak marg to North of cemetery etc, from the Eastern ridge of Bashir etc, to the Sahsarawan border.</p> <p>East-Through chak marg East of Bashir chak etc, bordering Sahasarwan, passing through chak marg of Mrs. Ravindra Kaur, East of Chandraveer Singh to Gonda Bahraich Highway via Mauni Baba Ashram route. Again in front of Jogendra Singh's house on the way to Gonda Bahraich highway to Shivdaha turn. East of Urvashi Devi (Kot Bazar) via chak marg to the Railway crossing to the house of Chandra Mohan.</p> <p>South- From Chandramohan's house to Kamarulnisha's house on the road from Block to Indira Memorial. From Rahul studio to Vishnu Shiv Bhagwan's house. From the house of Mangal to the house of Puran. Again from Harjan population to the garden of Manoj etc. On the path of Panditpurva to the garden of Jeevan Lal on the path of Veer Singh.</p> <p>West - From Jeevan Lal's Bagh to North chak marg, towards the canal, via Vijay Kumar's chak, West of the sports ground, to the North chak marg of the Shivjamwanti Temple, crossing through the East chak marg of Lalla Singh's house to Gonda Bahraich Marg of Anil Kumar etc. again from Gonda-Bahraich road.From the garden of resident Sahasarwan via the graveyard, from the chak of Pawan Kumar (gata number 955), via the East-West route, from the Eastern ridge of the chak of Chhitan Gata number 793 to the garden of Akshayvar Singh.</p>
4	Masoodpur	<p>North - Kashi pool gata no.624 via Block development office.</p> <p>East - From North to South Kashi Talab gata no.624 via Amarpati and Parasnath Farms via gata no.1080 on the South Road to Chandra Bhavan and Rangmahal, after walking in the North direction, passing through Lallidevi School, gata number 1175 on the Northern way of Lakhrwan Bagh, gata number 1202 from Triyugi Narayan's son Kedarnath, including the entire village assembly, towards the South, gata number 1240 chak of Ramraj and gata number 1248 Saktu Ram's chak. And gata number 1263 through the chak of Sita Devi, including the chak road located East of the chak of gata number 1292 Chandan Kumar and Kundan Kumar etc.</p> <p>South -Gata no.1292 from East to West from Chandan and Kundan Corporation including Filakhna, including Raj Kumar Nigam's shop and</p>

Ward No.	Name of Ward	Extent of Ward
1	2	3
		<p>house, crossing KB Inter College road, Ramsingh's house and Santoshi Mata Mandir street, Chunnilal's shop and by including Gopal Pandey's house, on the development block office road to the North, including the Northern road of Primary Health Center, till the number 400 of Nazar Mohammad's field.</p> <p>West -From South to North gata number 400 including the West road of Nazar Mohammad's chak, towards North direction gata no.390 including the North chak marg of Kamala Prasad's chak, gata no.779 including Satyanarayan's and Om Prakash's chak's East chak Including the road towards North direction including gata no.634 Chak marg, going West to gata no.724 west of Sahajaram's chak including both the chak Roads till North direction to Block Development Block Office.</p>
5	Payagpur Pratham	<p>North -West to East including gata no.425 Road gata no.438 from chak of Ram Dulari to East gata no.1288 Ahiranpurwa including East road of general population.</p> <p>East -North to South gata no.1288 including the East road of general population from Devi Saran's house <i>via</i> Mukesh Srivastava's street <i>via</i> Ramesh Chandra Pathak's house <i>via</i> Santosh Kotedar's house Sunil Valmiki including East interlocking to Gonda-Bahraich Highway.</p> <p>South -From the house of Sunil Valmiki to Gonda-Bahraich road from West to East gata no.1441 up to mill of Rajaram Gata no.340 including the way through the chak of Vraj Narayan to the house of Dharmaraj.</p> <p>West -Including Jal Nigam the route from South to North Rajaram Mill gata no.340 towards North From Paltanpurwa to chak No.438 of Ramdulari <i>via</i> water tank.</p>
6	Sachauli	<p>North -West to East form Thakur Prasad's <i>etc.</i> gata no.208 to chak gata no.221 Shatruhan Prasad <i>etc.</i></p> <p>East -North to South from gata no.221 of Shatruhan Prasad <i>via</i> South route to gata no.401 babu's chak to Kali road towards East crossing Masjid wali gali to Ali Ahmad house to house of Janakraj to South East to Baur's house <i>via</i> gata no.1287 chak of Nanake.</p> <p>South-From Nanake chak no. 1287 towards West chak marg <i>via</i> Sundar's house, <i>via</i> Shivnath house crossing Kali sadak towards Mastan Shah Baba <i>via</i> Feel Khana marg the chak of Halimun gata no.424.</p> <p>West -From gata no.424 South to North Halimun towards gata no.338 Brij Kuwanri. gata no.208 Thakur Prasad <i>etc</i> chak.</p>
7	Payagpur Dwitiya	<p>North - Eastern route of Ahiran Purwa gata no.1244 Arjun and Nakul with sons of Ram Bahadur's chak gata no.1202 Fullar Singh, Jagdamba Singh <i>etc.</i> sons of From Kuldeep's chak to the South <i>via</i> small canal to Payagpur Ikauna Pulia Marg.</p> <p>East - From the culvert of the small canal, including the Ikauna Payagpur road, towards the South side till the paan shop of Indrajit Yadav.</p> <p>South -From Indrajit's paan shop, West through Kalithan, from Basant Kumar Singh's master's house, including interlocking, through Prayag Dutt's house, <i>via</i> Suresh Soni's house, to Ram Khelwan's house.</p> <p>West -From South to North, passing through Ramkhelawan's house, passing through Babu Lal's house, passing through Santosh Pathak Lekhpal's house, gata no.1244 with Arjun and Nakul <i>etc.</i> son of Ram Bahadur including interlocking to the Eastern route of Ram Bahadur chak Ahiranpurwa.</p>

Ward No.	Name of Ward	Extent of Ward
1	2	3
8	Paitaura	<p>North- East from Shivdaha Marg Petrol tank gata no.153 walking East of Sunil Kumar <i>etc.</i> East of road and passing gata no.193 East of Vishal's plot, gata no.184 including South chak marg of Baleshwar Nath, gata no.299 Keshavram and Hansraj <i>etc.</i> Through the Chak in the including gata no.389 chak marg and walking towards South direction <i>via</i> Bahraich-Gonda Highway till the road leading to Tehsil Complex in the East direction.</p> <p>East-Highway going from North to South Gonda-Bahraich up to Railway line including the route leading to Tehsil Complex.</p> <p>South -West to East <i>via</i> Railway line up to Ruknapur border.</p> <p>West - From South to North Railway line on Shivdaha route.</p>
9	Noorpur	<p>North-From West to East, Pandit Purva to North passing through Jagatram S/o Gangaram's house to Chhedi S/o Matau's house to Rahul Studio.</p> <p>East-From North to South, <i>via</i> Rahul Photo Studio, <i>via</i> Kray Vikray Committee, from gata no.952 to South gata no.897, from the house of Hariram and Majnu and Sahajaram, in the East direction, gata no.750, passing through the fields of Murli S/o Vanshi, in the South direction. or gata number 760 till Vinod's house/farm.</p> <p>South - East to West <i>via</i> gata no.760 <i>via</i> Vinod's house/farm <i>via</i> North of Eidgaah <i>via</i> Chak marg gata no.840 to entire Safalapurwa.</p> <p>West -From South to North passing through Safalapurwa population (Nurpur) and straight North through Panditpurwa till the house of Jag Ram S/o Ganga Ram.</p>
10	Kot Bazar	<p>North-West to East, from house of Rahees son of Amanatulla <i>via</i> Kalithan passing through Kallu Manihar in the lane of Madarsa through street of Rinku Pintu, through street of Pratap Narayan and Kanhaiya Lal <i>via</i> house of Deepak Tiwari including Allu Driver North lane, <i>via</i> House of Bajrangi in front of Old Seed Depot crossing interlocking road <i>via</i> House of Mangli Gupta to Dileep Jaiswal's house crossing K.V. Inter College road passing through Aryavart Bank to shop of Baij Nath.</p> <p>East -From Shop of Baij Nath to East of K.V Inter College road ,in South gata number 1595 North linhay to Private forest.</p> <p>South -Gata number 1595 Private forest to North linhay <i>via</i> East West Prag Dutt's house to house of Rati Bengali <i>via</i> house of Shyam Lal Balmiki.</p> <p>West -<i>Via</i> house of Shyam Lal Balmiki to Shabbir Mishtri and Chhabban's house <i>via</i> house of Gulab Ansari to North of Ganesh Balmiki's house <i>via</i> house of Mehendi Hasan including lane of Ekta English Medium School to House of Rahees son of Amanatulla.</p>
11	Kathari Bagh	<p>North-West to East <i>via</i> gata number 173 Agro State towards Chak marg gata number 114 and 115 towards East gata no.775 <i>via</i> Eidgaah to chak of Ram Manohar son of Buddhu.</p> <p>East -North to East gata no.775 <i>via</i> Ram Manohar's son Buddhu's chak gata no.779 West ward <i>via</i> Satya Narayan Om Prakash chak gata no.784 South of barn's East chak marg gata no.256 Shri Mati Satyavati Singh chak through gata no.409 from chak of Iftikhar Ahmad to the border of talab Baghel <i>via</i> Bari mohalla in the South direction including the Community Health Center in the East.</p> <p>South -From East to West the pond <i>via</i> talab Baghel border Bari mohalla passes through the house of Chanchali Bari. gata no.504 going West through the house of Manoj <i>etc</i> <i>via</i> Katthari Bagh road till gata no.209 till jungle.</p> <p>West -South to North gata no.207 <i>via</i> chak of Kumari Vijay Lakshmi <i>etc.</i> gata no.195 Sanjay Kumar and gata no.182 <i>via</i> Bajrang upto Agro State including gata no.174 chak.</p>

Ward No.	Name of Ward	Extent of Ward
1	2	3
12	Bhoopganj	<p>North -West to East <i>via</i> Rahul studio from Anoop Sharraf's house to entire Jawahir Singh purwa till the farm of Shiv Shanker Pandey son of Satya Narayan gata no.1023.</p> <p>East - North to South moving from shiv shanker pandey's field gata no.1023 to South direction gata no.1049 from the chak of Surya Narayan Madhavraj <i>etc.</i> East gata no.from Tripal ji field to Ramna Bagh going South to gata no.1148 through the chak of Surya Prasad till the field of Shanti Prasad son of Rambal gata no.1174.</p> <p>South - Gata no.1174 going through Shanti Prasad's farm including gata no.1175 way. West ward gata no.1080 road South of Chandra Bhawan and Rang Mahal till the road leading to Bhoopganj bazar.</p> <p>West -From the South chak road of Rang Mahal towards the North from Chandra Bhawan, Ramna Bagh and Kashi talab <i>via</i> talab Baghel to Bhoopganj Bazar to Rahul photo studio.</p>
13	Sachauli Pratham	<p>North -From Baba Ram Prakash Mandir to khadanja marg from Raju's house to Bachcha Dubey's house to the Railway line <i>via</i> Holika dahan.</p> <p>South -Walking South on the Railway line <i>via</i> Anjani Singh's bagh to gata no.1287 to Nanake's chak.</p> <p>East -Gata no.1287 crossing the black road from the chak of Nanake to the West road till the house of Babu Tailor.</p> <p>West -From Babu Tailor house to Baba Ram Prakash Mandir in North direction.</p>
14	Kaandhi Kuyiya	<p>North - West to East gata no.1 passing through the chak of Yasoda <i>etc.</i> from the chak of Anand Prakash across the Kali Sadak passing through the chak of Ram Mani <i>etc.</i></p> <p>East -Gata no.76, crossing the Railway line from Shankar Baba Chaura Mandir, passing through the Chak of Ram Mani <i>etc.</i> from Bachha Dubey's house to Baba Ram Prakash mandir <i>via</i> Shatruhan house.</p> <p>South -From Baba Ram Prakash mandir <i>via</i> West route till the chak of gata no.206 Ganga Ram <i>etc.</i></p> <p>West -Gata no.197 including gata no.206 road of Ganga Ram Gata no.184 <i>via</i> Madhav Jung Bahadur Rana's Bagh by crossing the Railway line directly from Layak Ram's chak to gata no.1 Yasoda <i>etc.</i> chak.</p>
15	Kot Bazar	<p>North - From West to East passing through Husna Bano's house on the Northern side of Gata no.1426, from behind the house of Majeed and Hussaini and Khizir Mohammad, including Gata no.1442 of the North pond, directly from Vishambar's house to the street of Brijlesh Kashyap's house while crossing the interlocking road from the street of Santoshi Mata Mandir to the house of Chhedi Lal Vaishya, crossing the KV Inter College road to the house of Hamidul Gata no.1453, South of Feelkhana Rasta</p> <p>East - Gata no.1453 from the house of Hamidul to the house of Raj Kamal Soni, East of KV Inter College Marg, to the South JPJ School</p> <p>South - Jagdish and Jai Narayan crossing from JPJ School to KV Inter College road from Sudheesh Jaiswal's house to West Peshkar Yadav's house and crossing interlocking from Manoj's house, straight from Raghuvar Dayal's street including Umesh Barber's house. From the house of Rinku <i>etc.</i> in the lane of the madrassa, passing through the house of Babu Lal Manihar to the house of Islamuddin</p> <p>West - From the house of Islamuddin to the house of North gata no.1426 North Med Husna Bano</p>

By order,
AMRIT ABHIJAT,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 738 राजपत्र-2022-(1137)-599+50=649 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।